

महाराजा बहादुर राम रणविजय प्रसाद सिंह महाविद्यालय, आरा

सूचना

इंटरनेट कार्यक्रम (NISM) सूचना - द्वितीय चरण

इंटरनेट कार्यक्रम (NISM) के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि द्वितीय चरण के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यो को पूर्ण करना अनिवार्य है:

A. बैंक भ्रमण एवं रिपोर्ट लेखन (प्रत्येक 500 शब्दों में)

विद्यार्थी किसी एक बैंक में जाकर निम्न जानकारी प्राप्त करेंगे:

1. खाता खोलने की प्रक्रिया एवं ऑनलाइन बैंकिंग की विधि

- खातों के प्रकार (बचत खाता, चालू खाता, जीरो बैलेंस खाता, जन धन खाता)
- खाता खोलने हेतु आवश्यक दस्तावेज (KYC - आधार, पैन, पते का प्रमाण)
- खाता खोलने के फॉर्म भरने की प्रक्रिया
- ऑनलाइन बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग / UPI सक्रिय करने की प्रक्रिया
- ऑनलाइन बैंकिंग में सुरक्षा के उपाय

2. लोन लेने की प्रक्रिया

- लोन के प्रकार (शिक्षा लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, मुद्रा लोन)
- पात्रता मानदंड एवं आवश्यक दस्तावेज
- सिबिल स्कोर और उसका महत्व
- ब्याज दर, EMI गणना और पुनर्भुगतान प्रक्रिया
- लोन आवेदन की प्रक्रिया - ऑनलाइन और ऑफलाइन

नोट: रिपोर्ट आपके वास्तविक बैंक भ्रमण पर आधारित होनी चाहिए। बैंक का नाम, शाखा, भ्रमण की तिथि एवं संबंधित अधिकारी के नाम का उल्लेख अनिवार्य है।

B. पुस्तक सारांश (2000 शब्दों में)

रॉबर्ट टी. कियोसाकी द्वारा लिखित पुस्तक "रिच डैड पुअर डैड" का सारांश 2000 शब्दों में लिखें, जिसमें निम्न बिंदु शामिल हों:

- रिच डैड बनाम पुअर डैड की मुख्य अवधारणा
- वित्तीय साक्षरता का महत्व
- संपत्ति बनाम देनदारी की अवधारणा
- रेंट रेस और उससे बाहर निकलने का उपाय
- जीवन में वित्तीय शिक्षा का महत्व
- आपने इस पुस्तक से अपने जीवन के लिए क्या सीखा

जमा करने हेतु निर्देश:

- दोनों कार्य अंग्रेजी या हिन्दी में हस्तलिखित या टंकित होने चाहिए।
- शब्द-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए।

18-09-26
Principal
M.B.R.V. Pd Singh College, Ara

Maharaja Bahadur Ram Ranvijay Prasad Singh College, Ara

Notice

Internship Programme (NISM) NOTICE – PHASE-II

All students of Internship Programme (NISM) are hereby informed that they have to complete Phase-II as per details below:

A. FIELD VISIT TO BANK AND REPORT WRITING (500 WORDS EACH)

Students shall visit any one bank and collect information:

1. Procedure for Opening an Account and Method of Online Banking

- a) Types of accounts (Savings, Current, Zero Balance, Jan Dhan)
- b) Documents required for account opening (KYC - Aadhaar, PAN, Address Proof)
- c) Account opening form filling process
- d) Procedure for activating Online Banking / Mobile Banking / UPI
- e) Safety precautions in online banking

2. Procedure for Taking a Loan

- a) Types of loans (Education Loan, Personal Loan, Home Loan, Mudra Loan)
- b) Eligibility criteria and documents required
- c) CIBIL Score and its importance
- d) Interest rate, EMI calculation and repayment process
- e) Process of loan application - online and offline

Note: Report must be based on actual visit with name of bank, branch, date of visit and interaction with bank officer.

B. BOOK SUMMARY (2000 WORDS)

Summary of "Rich Dad Poor Dad" by Robert T. Kiyosaki including:

- a) Main concept of Rich Dad vs Poor Dad
- b) Importance of financial literacy
- c) Concept of Assets vs Liabilities
- d) Rat Race and how to come out of it
- e) Importance of financial education
- f) Lessons learned for own life

Instructions for Submission:

1. Both assignments should be in English or Hindi (Handwritten/Typed)
2. Word limits must be strictly followed

Link to download the book:

Hindi : <https://www.stgregoriosudaipur.ac.in/pdf/motivational/Rich-Dad-Poor-Dad.pdf>

English:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://sopheaksrey.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/04/rich_dad_poor_dad_by_robert_t_kiyosaki.pdf&ved=2ahUKEwi3pri81PKWAXV33jgGHcOYL2gQFnoECDAQAQ&usq=AOvVaw1gjt1FEcrtFhYxJGoGI7ux

18-09-26
Principal
M.B.R.V. Pd Singh College, Ara